

VI SST OTBA

मुक्त पाठ आधारित प्रश्न **OPEN TEXT BASED ASSESSMENT(OTBA)**

बच्चूमाँझी—एक रिक्शावाला

मैं बिहार के गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीबी और तीन बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गाँव में मिस्त्री गिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने एक पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे, उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को आठ-नौ बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आस-पास करीब छः किलोमीटर तक रिक्शा चलता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपए तक देता है जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल लानदार होती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फ़ैक्टरी में काम करते हैं। रोज़ 80-100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में दो-तीन बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीबी खेतों में मज़दूरी करके थोड़ा-बहुत कमा लेती है।

BACHCHU MANJHI-A CYCLE -RICKSHAW PULLER

I come from a village in Bihar where I worked as a Mason. My wife and three children live in the village. We don't own land. In the village, I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. After I reached this city; I bought an old cycle rickshaw and paid for it in installments. This was many years ago. I come to the bus stop every morning and take the customers wherever they want to go. I work till 8.30 in the evening. I take rides of up to 6 kilometers in the surrounding area. Each customer gives me Rs.5-10 per trip depending on the distance. When I'm ill I can't do this work, so on those days I don't earn anything. I stay with my friends in a rented room. They work in a nearby factory. I earn between Rs.80-100 every day, out of which I spend Rs.50-60 on food and rent. The rest I save for my family. I visit my village two or three times a year to see my family. Though my family survives on the money I spend, my wife also earns from agricultural work that she gets once in a while.